

दिल्ली राजपत्र

Delhi Gazette

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 45]	दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 13, 2015/चैत्र 23, 1937	[स.रा.रा.क्षे.दि. सं. 6
No. 45]	DELHI, MONDAY, APRIL 13, 2015/CHAITRA 23, 1937	[N.C.T.D. No. 6

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

मण्डलायुक्त कार्यालय, राजस्व विभाग

(समन्वय शाखा)

अधिसूचना

दिल्ली, 13 अप्रैल, 2015

सं. एफ. 25/सीइओ/डीडब्ल्यूबी/09/1038.—दिल्ली वक्फ बोर्ड नियमावली 1997 के नियम 13 के उप-नियम (2) एवं (3) के प्रावधानों के अनुपालन में निर्वाचन प्राधिकरण वक्फ कानून 1995 (43/1995) के प्रावधानों के अनुसार दिल्ली वक्फ बोर्ड के (विधायक श्रेणी) सदस्य के चुनाव के लिए तिथि (तिथियां) प्रपत्र DWB-III में पुनः अधिसूचित करता है तथा उसके तहत निर्मित नियम इस प्रकार हैं:-

फार्म डी डब्ल्यू बी -III
नियम-13

दिल्ली वक्फ बोर्ड के सदस्य के निर्वाचन के लिए सूचना

- श्रेणी का नाम जिसके लिए चुनाव होना है : विधायक।
- नामांकन पत्र प्रस्तुत किया जाएगा
 - तिथि : अप्रैल 24, 2015 से अप्रैल 25, 2015।
 - समय : पूर्वान्ह 10.30 बजे से अपरान्ह 5 बजे तक
 - स्थान : कार्यालय, उपायुक्त (केन्द्रीय)/निर्वाचन अधिकारी, पुराना रोजगार कार्यालय, दरियागंज, नई दिल्ली-110002।
- नामांकन पत्र की जांच-पड़ताल
 - तिथि : अप्रैल 27, 2015।
 - समय : पूर्वान्ह 11 बजे।
 - स्थान : कार्यालय, उपायुक्त (केन्द्रीय)/निर्वाचन अधिकारी, पुराना रोजगार कार्यालय, दरियागंज, नई दिल्ली-110002।

4. नामांकन पत्र की वापसी
 (क) तिथि : अप्रैल 28, 2015।
 (ख) समय : सायं 5 बजे तक।
 (ग) स्थान : कार्यालय, उपायुक्त (केन्द्रीय)/निर्वाचन अधिकारी, पुराना रोजगार कार्यालय, दरियागंज, नई दिल्ली-110002।
5. मतदान होगा
 (क) तिथि : अप्रैल 29, 2015।
 (ख) समय : प्रातः 9 बजे से सायं 4 बजे।
 (ग) स्थान : कार्यालय, उपायुक्त (केन्द्रीय)/निर्वाचन अधिकारी, पुराना रोजगार कार्यालय, दरियागंज, नई दिल्ली-110002।
6. युनाय अधिकाारी द्वारा मतों की गिनती
 (क) तिथि : अप्रैल 29, 2015।
 (ख) समय : सायं 5:00 बजे।
 (ग) स्थान : कार्यालय, उपायुक्त (केन्द्रीय)/निर्वाचन अधिकारी, पुराना रोजगार कार्यालय, दरियागंज, नई दिल्ली-110002।
7. परिणामों की घोषणा
 (क) तिथि : अप्रैल 29, 2015।
 (ख) समय : सायं 5:30 बजे।
 (ग) स्थान : कार्यालय, उपायुक्त (केन्द्रीय)/निर्वाचन अधिकारी, पुराना रोजगार कार्यालय, दरियागंज, नई दिल्ली-110002।
- अश्वनी कुमार, सचिव (राजस्व)/मण्डलायुक्त निर्वाचन प्राधिकारी

**OFFICE OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER
 (REVENUE DEPARTMENT)**

(Co-Ordination Branch)

NOTIFICATION

Delhi, the 13th April, 2015

No. F.25/CEO/DWB/09/1038.—In pursuance of the provisions of sub-rule (2) & (3) of Rule 13 of the Delhi Wakf Rules, 1997, the Election Authority hereby notifies in Form DWB-III the date (s) for the election of member of the Delhi Wakf Board (in the M.L.A. category) in accordance with the provisions of Wakf Act, 1995 (43 of 1995) and the Rules made there under as follows:—

**FORM DWB – III
 Rule 13**

1. Name/s of the category for which election to MLAs be held
2. Nomination papers shall be presented:-
 a. Date : 24th April, 2015 to 25th April, 2015
 b. Time : Between 10:30 a.m. to 5:00 p.m.
 c. Place : Office of Deputy Commissioner (Central)/ Returning Officer, Old Employment Exchange Building, Darya Ganj, New Delhi
3. Scrutiny of nomination papers:-
 a. Date : 27th April, 2015
 b. Time : 11:00 a.m.
 c. Place : Office of Deputy Commissioner (Central)/ Returning Officer, Old Employment Exchange Building, Darya Ganj, New Delhi

- 4 Withdrawal of Nomination :-
a Date 28th April, 2015
b. Time Upto 5:00 p.m.
c. Place Office of Deputy Commissioner (Central)/
Returning Officer, Old Employment Exchange
Building, Darya Ganj, New Delhi
- 5 Polling shall be held at place:-
a Date 29th April, 2015
b. Time 9:00 a.m. to 4:00 p.m.
Office of Deputy Commissioner (Central)/
Returning Officer, Old Employment Exchange
Building, Darya Ganj, New Delhi
- 6 Counting of votes by the Election Office:-
a Date
b. Time 29th April, 2015
c. Place 5:00 p.m.
Office of Deputy Commissioner (Central)/
Returning Officer, Old Employment Exchange
Building, Darya Ganj, New Delhi
- Declaration of results:-
a Date
7 b. Time 29th April, 2015
c. Place 5:30 p.m.
Office of Deputy Commissioner (Central)/
Returning Officer, Old Employment Exchange
Building, Darya Ganj, New Delhi

ASHWANI KUMAR, Secy. (Revenue)-cum-Divisional Commissioner Election Authority

